

केन्द्रीय विद्यालय वायु सेना स्थल , सालुआ

शिक्षा मंत्रालय , भारत सरकार के अधीन एक स्वायत निकाय

Kendriya Vidyalaya AFS, Salua

An Autonomous Organisation Under Ministry of Education, Govt of India वायु सेना स्थल सालुआ, जिला पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल - 721145 Air Force Station, Salua, Distt- Paschim Medinipur, West Bengal-721145 Tel: 03222-296534, website: www.afssalua.kvs.ac.in Email: kvsalua@gmail.com

NOTICE

DATE-

APPLICATION ARE INVITED FOR ADMISSION IN THE SESSION (2023-24) FOR THE CLASS (II TO IX) AS PER BELOW MENTIONED VACANT POSITION AVAILABLE.

CLASS	TENTATIVE VACANCY
	NIL
Ш	14
IV	10
V	5
VI	8
VII	7
VIII	1
IX	NIL

NOTE-

- 1. The vacancy may vary due to transfer in and transfer out of the
- 2. The vacancy will be updated on 01/04/2023 students.

The following information is to be followed: -

- 1. Submission of filled registration form in the school 3/04/2022 to 12/04/2022.
- 2. Submission of time 10:00 am-12:00 pm
- Registration form can be obtained from school or school website
- 4. Declaration of list of class (II- IX) is 17-04-2022 after draw of lots.

(a) gon दुनार I/C ADMISSION

प्राचार्य / PRINCIPAL केन्द्रीय विद्यालय / KENDRIYA VIDYALAYA वायुसेना स्थल /AIR FORCE STATION साल्बा / SALUA

REQUIRED LIST OF COPY OF DOCUMENTS (DULY SIGNED) SHOULD BE SUBMITTED AT THE TIME OF SUBMISSION OF FILLED REGISTRATION FORM

- 1. DATE OF BIRTH CERTIFICATE FROM THE COMPETENT AUTHORITY, IF APPLICABLE.
- 2. TRANSFER CERTIFICATE, ISSUED BY THE PREVIOUS SCHOOL AND DULY COUNTERSIGNED BY THE COMPETENT AUTHORITY. (SCHOOL'S RECOGNITION/AFFILIATION NO. MUST APPEAR ON THE CERTIFICATE.) OR AFFIDEVIT.
- 3. SERVICE CERTIFICATE WITH TRANSFER DETAIL, IF APPLICABLE
- 4. SC/ST/OBC CERTFICATE, IF APPLICABLE.
- 5. RESIDENTIAL PROOF/ LOCAL ADDRESS PROOF (VOTER ID, RATION CARD, BANK PASSBOOK, RENT AGREEMENT CERTIFICATE FROM COMPETENT AUTHORITY ETC).

Agengmin I/C ADMISSION

> प्राचार्य / PRINCIPAL केन्द्रीय विद्यालय / KENDRIYA VIDYALAYA बायुसेना स्थल /AIR FORCE STATION

साल्बा / SALUA

Class:	Miles Ballery 1	Gillory and Registration Form	.
-	Res. No.		
	क पुरा नाम (स्मन्द्रशस्त्री में)		
Name of	he Child in full (in Capital letter)	200 - 100 -	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
			Third Gender
जन्म ।ता	क (अंकी में) / Date of Birth (in	igure): दिन Day नास	Month 31
शब्दों में	In words:		
	ध तक आयु/ Age as on 31.03.2	021 qq /Year AIRI/Mor	th Rajor
8		Mississippi Missis	والمستأسيا
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	어디에 가장했다. 경기 시간 사람이 되었다. 그 그 그 그리는 이 없는데 모든 이 이번 모든데 내용하다.	Blood Group of the Child (With Ath A	
बर्घ की	सम्बंधित श्रेणी General SC	ST DECCL CHENCL ENS	BPL DIR Abled 56 C
pasony to w	high-chilté belong:		
मधार कार्ड	See Andher Card Number	divada da la	
माता पित	ह कर विवरण/Details of Mothers	k Father:	
क्र.सं. S.N	a American Cartana	माता/Mother	पिता / Fathe
(i)	नाम (स्पष्ट शब्दों में)/	1434	
, and editions in the	Name (In Capital Letter)	and selection of the	
(11)		e de Caracteria de la composición de l Composición de la composición de la co	
(m) (m)	Name (In Capital Letter)		
6.0 gs (600 to 5	Name (In Capital Letter) राष्ट्रीयता (Nationality) व्यवसाय (Occupation) कार्यालय का नाम, पूरा		
(in)	Name (In Capital Letter) राष्ट्रीयता (Nationality) व्यवसाय (Occupation) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरमाष / Name		
(in)	Name (In Capital Letter) राष्ट्रीयता (Nationality) इयवसाय (Occupation) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरमाष / Name of the Office, Full		
(in)	Name (In Capital Letter) राष्ट्रीयता (Nationality) व्यवसाय (Occupation) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरमाष / Name		
(in)	Name (In Capital Letter) राष्ट्रीयता (Nationality) इयवसाय (Occupation) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरमाष / Name of the Office, Full Address & Telephone		
(m) (iv)	Name (In Capital Letter) राष्ट्रीयता (Nationality) व्यवसाय (Occupation) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरमाष / Name of the Office, Full Address & Telephone Number.		
(m) (iv)	Name (In Capital Letter) राष्ट्रीयता (Nationality) व्यवसाय (Occupation) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरआप / Name of the Office, Full Address & Telephone Number. पूर्ण आवासीय पता व दूरआप (ग्रमाण सहित)/ Full Residential Address		
(m) (iv)	Name (In Capital Letter) राष्ट्रीयता (Nationality) इयवसाय (Occupation) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरमाष / Name of the Office, Full Address & Telephone Number. पूर्ण आवासीय पता व दूरमाष (प्रमाण सहित)/ Full Residential Address & Telephone No. (With		
(m) (iv)	Name (In Capital Letter) राष्ट्रीयता (Nationality) इयवसाय (Occupation) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरआष / Name of the Office, Full Address & Telephone Number. पूर्ण आवासीय पता व दूरआष (प्रमाण सहित)/ Full Residential Address & Telephone No. (With Proof)		
(m) (iv)	Name (In Capital Letter) राष्ट्रीयता (Nationality) व्यवसाय (Occupation) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरमाष / Name of the Office, Full Address & Telephone Number. पूर्ण आवासीय पता व दूरमाष (प्रमाण सहित)/ Full Residential Address & Telephone No. (With Proof) विद्यालय से दूरी		
(m) (iv)	Name (In Capital Letter) राष्ट्रीयता (Nationality) व्यवसाय (Occupation) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरमाष / Name of the Office, Full Address & Telephone Number. पूर्ण आवासीय पता व दूरमाष (प्रमाण सहित)/ Full Residential Address & Telephone No. (With Proof) विद्यालय से दूरी (कि.मी. में)/Distance		
(m) (iv)	Name (In Capital Letter) राष्ट्रीयता (Nationality) व्यवसाय (Occupation) कार्यालय का नाम, प्रा पता व द्रशाष / Name of the Office, Full Address & Telephone Number. पूर्ण आवासीय पता व द्रशाष (प्रमाण सहित)/ Full Residential Address & Telephone No. (With Proof) विद्यालय से द्री (कि.मी. में)/Distance from KV in KM.		
(m) (iv) (v) (vi)	Name (In Capital Letter) राष्ट्रीयता (Nationality) व्यवसाय (Occupation) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरआष / Name of the Office, Full Address & Telephone Number. पूर्ण आवासीय पता व दूरआष (प्रमाण सहित)/ Full Residential Address & Telephone No. (With Proof) विद्यालय से द्री (कि.मी. में)/Distance from KV in KM. मूस वेतन / Basic Pay विकटो 7 वर्षी में म्हावालतम्ण		
(m) (iv)	Name (In Capital Letter) राष्ट्रीयता (Nationality) व्यवसाय (Occupation) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरआष / Name of the Office, Full Address & Telephone Number. पूर्ण आवासीय पता व दूरआष (प्रमाण सहित)/ Full Residential Address & Telephone No. (With Proof) विद्यालय से दूरी (कि.मी. में)/Distance from KV in KM. मूस वेतन / Basic Pay किलं 7 पर्यों में म्यावालतम्ण की संस्वा/ No of Transfers		
(m) (iv) (v) (vi)	Name (In Capital Letter) राष्ट्रीयता (Nationality) व्यवसाय (Occupation) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरमाष / Name of the Office, Full Address & Telephone Number. पूर्ण आवासीय पता व दूरमाष (प्रमाण सहित)/ Full Residential Address & Telephone No. (With Proof) विद्यालय से दूरी (कि.मी. में)/Distance from KV in KM. मूस वेतन / Basic Pay किले 7 पर्यों में म्यावालतम्ण की संस्था/No of Transfers in last 7 years (As on 31/03/2021)		
(m) (iv) (v) (vi)	Name (In Capital Letter) राष्ट्रीयता (Nationality) व्यवसाय (Occupation) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरआष / Name of the Office, Full Address & Telephone Number. पूर्ण आवासीय पता व दूरआष (प्रमाण सहित)/ Full Residential Address & Telephone No. (With Proof) विद्यालय से दूरी (कि.मी. में)/Distance from KV in KM. मूस वेतन / Basic Pay किलं 7 पर्यों में म्यावालतम्ण की संस्वा/ No of Transfers		

• I certify that the above entries are true to the best of my knowledge.

दिनांक/Date:

(xi)

der umpranservice certificate

(display struct/Central Govt)

कार्यालय/मंश्रास्य में नियमित वार्मशारी के कप राहफल्स/आई.टी.बी.ची.सीमा माना वस्तुताल	
अवजनिक क्षेत्र के उपात्रम जो पूर्ण या अधिक उप	जी /पसःपी:जी /सी:आई:एस.एफ /केन्द्रीय सरकार स्वापतः सस्याः सै केंद्र सरकार से वित-पोषित हैं, के नियमित कर्मधारी हैं
ाया उनकी श्रेषा अस्थामांतरणीय है/पूर्ण भारत में क	ा भारत परवार सा अवस्था सामत है, के लियां सह केने बारा है
	न्सः न्यानातस्यायः ह।
ordifed that Shri/Sme	
in the office/Ministry	ignationis working as regular amployee
CRPF/BSF/NSG/SPG/CISE/SSR/Asses Million	He/She is a regular employee of Defence Service //// e/Central Govt./Autonomous Body/Public Sector
Undertaking fully financed /partially financed	ced by Central Govt. and his/her services are
non-transferable/transferable anywhere is	Paris
Approximate the second	कार्यातय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
स्थान/Place	(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
दिनांक/Date	Signature of Head of the Office
IGNI 47/Date	(With Name, Designation and Office Stamp)
कार्यातय का पूर्ण पता एवं दूरमाव संख्या	
Complete address and Telephone No. of office	
and the second of the second o	
생각하는 이 경우 이 아이들은 아이는 아이를 하는데 아이들이 아니는	
मेवा प्रमाण-एक/९	SERVICE CERTIFICATE
그렇게 느로 내려왔다는데, 하는 이 글로만 없는데, 하나 없다면 하다.	SERVICE CERTIFICATE
그렇게 느로 내려왔다는데, 하는 이 글로만 없는데, 하나 없다면 하다.	SERVICE CERTIFICATE ROR/State Govt.)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती	रकार/State Govt.)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती	रकार/State Govt.)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है।	रकार/State Govt.) रूप में वार्यरत हैं। तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मधारी के राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है। Cartified that Shri/Smt.	स्वार/State Govt.) रूप में कार्यरत हैं तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण is permanently working in the office/Ministry of
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मधारी के राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है। Cartified that Shri/Smt.	रकार/State Govt.) रूप में वार्यरत हैं। तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मधारी के राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है। Cartified that Shri/Smt	स्वार/State Govt.) रूप में कार्यरत हैं तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण is permanently working in the office/Ministry of
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मधारी के राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है। Cartified that Shri/Smt	स्वार/State Govt.) रूप में कार्यरत हैं। तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मधारी के राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है। Cartified that Shri/Smt	स्वार/State Govt.) रूप में कार्यरत है। तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मधारी के राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है। Cartified that Shri/Smt	स्वार/State Govt.) रूप में कार्यरत है। तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण is permanently working in the office/Ministry of con-transferable/transferable anywhere in State. कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर (नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मधारी के राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है। Certified that Shri/Smt	स्वार/State Govt.) रूप में कार्यरत हैं। तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण is permanently working in the office/Ministry of con-transferable/transferable anywhere in State. कार्यांतय अध्यक्ष के हस्ताक्षर (नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित) Signature of Head of the Office
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती	स्वार/State Govt.) रूप में कार्यरत है। तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण is permanently working in the office/Ministry of con-transferable/transferable anywhere in State. कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर (नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)

तरा प्रम	Ambanian minable -	ाम) रती हैं पि	फले साल साल (/पदनाम) 31.03.202	an a	THE THIRD A TO	्रकार्या
		(344)	स शस्यों में) स्थार	वंसरण हार	Charge 6	ाप्या स्थानः सः दूसः विवस्ताः जीवे विकार	rate k a
115		(Name)	(rn	nk/ decion	affirm's of	1,	(office)
bereby	pertify that durin	if the past	7 years (up to 31	03.2021	have he	en transferred	7.7
times (in figures & in w	vords) from	n one station to an	other, the	details of	which are given a	is under:-
	لم. ا		T	T			आदेश सं
क्र. स. S. No.	कार्यालय/ यूनिट Office/Unit	स्थान Place	रेक/पदनाम Rank/Designation	दिनांक		ठहरने की अवधि Period of stay	Order N
1.	QIII COIII	Flace	Ratio Ocsignation	से/ From	तक/То	retion or any	
2.			-				
3,		i program i	ese n light, and a constant			And the second	
4.		17 (2.4)					
5.	 	, d. , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
6.							
7.							
	पहा आएगा। 1 km sion in Kendriya V		he above-mentioned	facts are for	and incorre	केन्द्रीय विद्यालय ect, my child will b माता/पिता के ह	दस्ताक्षर
		idyalaya.	he above-mentioned	facts are 101	ind incorr	cci, my came was	दस्ताक्षर
		idyalaya.	he above-mentioned	facts are 101	на псоп	माता/पिता के ह Signature of P	दस्ताक्षर
admis	sion in Kendriya V	idyalaya.	he above-mentioned	facts are 101	ina incom	माता/पिता के ह Signature of P	स्तादार 'बासा
admis: इं (कार्या	sion in Kendriya V न, लय), एतद द्वारा प्र	idyalaya.	he above-mentioned	facts are 101	ina incom	माता/पिता के ह Signature of P	स्टाधार ^l arent
admis: इं (कार्या	sion in Kendriya V	idyalaya. अगणित करत	मिह्नस्ताक्षर/Counte (नाम)	facts are 101 reignature यरण को का	(रैंक/\ र्यालय-आतं	माता/पिता के ह Signature of P पदनाम)	स्ताक्षर 'बाटार गया है व
admis (कार्या पाया	sion in Kendriya V त्रें लय), एतद द्वारा प्र गया है।	idyalaya. अगणित कर	मित्रहरूनाक्षर/Counter (नाम) ता हूँ कि उपरोक्त वि	facts are 101 reignature यरण को का	(रैंक/\ र्यालय-आत	माता/पिता के ह Signature of P पदनाम)	स्ताद्धार धावार गया है व
admis (कार्या पाया	sion in Kendriya V त्रें लय), एतद द्वारा प्र गया है।	idyalaya.	मिह्नस्ताक्षर/Counte (नाम)	facts are 101 reignature यरण को का	(रैंक/\ र्यालय-आत	माता/पिता के ह Signature of P पदनाम)	स्ताक्षर 'बाटार्ग गया है व
admis (कार्या पाया	हांon in Kendriya V हैं, लय), एतद द्वारा प्र गया है।	idyalaya.	मित्रहरूनाक्षर/Counter (नाम) ता हूँ कि उपरोक्त वि	facts are 101 reignature यरण को का	्रिक/प्र यालय-आल on) of eve been a	माता/पिता के ह Signature of P पदनाम)	स्ताक्षर Parent गया है व records hei
admis (कार्या पाया	हांon in Kendriya V हैं, लय), एतद द्वारा प्र गया है।	idyalaya.	मित्रहरूनाक्षर/Counter (नाम) ता हूँ कि उपरोक्त वि	facts are 101 reignature u্বে কা কা k/designatio	(रैंक/प्र्यालय-आतं on) of we been a	माता/पिता के ह Signature of P पदनाम) पेखों से जाँच लिया	क्ताकार Parent गया है व records hei
admis (कार्या पाया : (unit/o the of	हां है। department) hereby	idyalaya.	मित्रहरूनाक्षर/Counter (नाम) ता हूँ कि उपरोक्त वि	facts are 101 reignature u্বে কা কা k/designatio		माता/पिता के ह Signature of P पदनाम) पदनाम) पेखों से जाँच लिया uthenticated by the	स्ताक्षर 'areni गया है व records hei
admis (कार्या पाया : (unit/c the of	sion in Kendriya V त्रें स्वाप्त होता प्र ज्या है। department) hereby fice and found corre	idyalaya.	मित्रहरूनाक्षर/Counter (नाम) ता हूँ कि उपरोक्त वि	rsignature परण को का k/designation in above ha	्रिक/प्र्यालय-आत on) of we been a कार्याल म, पद औ	माता/पिता के ह Signature of P पदनाम) पदनाम) पेखों से जाँच लिया uthenticated by the य अध्यक्ष के हस्त र कार्यालय की मो	स्ताक्षर Parent गया है व records hel
admis (कार्या पाया (unit/o the of	हांon in Kendriya V	idyalaya.	मिहन्ताकर/Counter (नाम) ता हूँ कि उपरोक्त विकास (ran the particulars given	rsignature परण को का k/designation in above ha	्रिक/प्र्यालय-आत on) of we been a कार्याल म, पद औ	माता/पिता के ह Signature of P पदनाम) पदनाम) पेखों से जाँच लिया uthenticated by the	स्ताक्षर Parent गया है व records hel records hel records hel
admis (कार्या पाया : (unit/o the of	sion in Kendriya V	idyalaya. माणित करः (naccertify that ect.	मिहन्ताकर/Counter (नाम) ता हूँ कि उपरोक्त विकास (ran the particulars given	facts are 100 ersignature uरण को का k/designation in above ha	्रिक/प्र्यालय-आर्त on) of we been a कार्याल म, पद औ Signan	माता/पिता के ह Signature of P पदनाम) पदनाम) पेखों से जाँच लिया uthenticated by the पर कार्यालय की मो ure of Head of the O esignation and Off	स्ताक्षर Parent गया है व records hei

सेवा-कालीन मृत्यु प्रमाण-पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE (केवस केन्द्रीय सरकार के कर्मधारियों के किय/Only for Central Govt. Employees)

The state of the s

श्री/बीमती (कार्यासय/विभाग) में नियमित रूप	से सेवारत थे/थीं और उनका देहावसान सेवाकाल की अवधि व
दिमांकको हो गया था।	
Certified that Master/Miss	is the son/daughter of Late Sh./Sn
	who was regular employee of
Office/Denortment) and he/she died	
Office/Department) and he/she died	
	in harness (while in service) on(date).
agadanika sa panganan masakan a masakan pangan pangan ang masakan a masakan sa masakan sa masakan sa masakan s Masakan sa masakan sa m	in harness (while in service) on(date). कार्यासय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
	in harness (while in service) on(date). कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर (लाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
PIF/Place	in harness (while in service) on(date). कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर (नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित) Signature of Head of the Office
PIF/Place	in harness (while in service) on(date). कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर (लाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
enteriore de la companya de la comp La companya de la co	in harness (while in service) on(date). कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर (लाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित) Signature of Head of the Office (With Name, Designation and Office Stamp)